



भारतीय मानक ब्यूरो
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग), भारत सरकार
मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002



विज्ञापन सं. 1/2020/स्थापना

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय और देश में मानकीकरण, उत्पाद एवं पद्धति प्रमाणन, सोना/चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग, प्रयोगशाला परीक्षण करने, इत्यादि के क्षेत्र में गतिविधियों हेतु उत्तदायी निकाय, बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली और देशभर में स्थित बीआईएस कार्यालयों में सीधी भर्ती द्वारा निम्नलिखित पदों पर रिक्तियाँ भरने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से नीचे दिए गए विवरणानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है:

1. **रिक्तियों की संख्या** : इन पदों की रिक्तियों का श्रेणीवार ब्रेक-अप निम्नानुसार है :

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्तियों की सं.	अनारक्षित	ईडब्ल्यूएस	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि. व.	समानांतर रिक्तियाँ	
								पीडब्लूडी	भू.पू.सै
1	तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)	30 @	04	11	04	04	07	01 (बधिर)	03
2	वरिष्ठ तकनीशियन	20 #	11	02	01	02	04	01 (बधिर)	02

@30 रिक्तियों का विषय-वार विभाजन - 12 रसायन, 05 मैकेनिकल, 02 इलेक्ट्रीकल, 06 सूक्ष्मजीव विज्ञान, 05 सिविल

#20 रिक्तियों का विषय-वार विभाजन - 01 वातानुकूलन/रैफ्रिजेशन, 07 मैकेनिक (डीजल इंजन), 05 इलेक्ट्रीशियन, 03 फीटर, 01 वैल्डर, 03 कार्पेंटर
-संक्षिप्तियाँ : यूअर - अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अ.जा. - अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. - अनुसूचित जन जाति, अ.पि.व. - अन्य पिछड़ा वर्ग, भू.पू.सै.- भूतपूर्व सैनिक पीडब्लूडी - विकलांग/ दिव्यांग,

i) दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार "आरक्षण की इंटरलॉकिंग" उपलब्ध कराई जाएगी।

ii) दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्तियों हेतु प्रतियोगी होने या छूट/रियायत लेने हेतु आवेदन करने के पात्र दिव्यांग की न्यूनतम विकलांगता 40% होनी चाहिए।

iii) ये पद इन चार (दृष्टिहीनता/कमजोर दृष्टि/वर्णांधता) प्रकार के दिव्यांगों के लिए चिह्नित नहीं किए गए हैं।

iv) आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण: 17 फरवरी 2020 से 08 मार्च 2020 तक

v) महत्वपूर्ण सेवा शर्तों के लिए कृपया अनुलग्नक-I देखें।

2. आरक्षण :सभी आरक्षणों के संबंधी विवरणों हेतु अनुलग्नक-II देखें।

3. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ:

क्र.सं.	पद का नाम	अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ
1	तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)	(i) कम से कम साठ प्रतिशत (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पचास प्रतिशत) अंकों के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री (एक प्रमुख विषय के रूप में रसायनशास्त्र या सूक्ष्मजीव विज्ञान या भौतिकीशास्त्र या जैव-प्रौद्योगिकी, या खाद्य प्रौद्योगिकी या जैव-रसायनशास्त्र या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ); या (ii) कम से कम साठ प्रतिशत (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पचास प्रतिशत) अंकों के साथ मैकेनिकल या इलेक्ट्रीकल या कैमिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फुड टेक्नोलॉजी या मेटलर्जी में तीन वर्षीय डिप्लोमा।
2	वरिष्ठ तकनीशियन	(i) मैट्रिक या इसके समकक्ष; (ii) निम्नलिखित ट्रेड में से किसी एक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र : (क) इलेक्ट्रीशियन; (ख) एयर-कंडिशनिंग; (ग) रेफ्रिजरेशन; (घ) मैकेनिक (डीजल ईंजन); (ङ) फीटर; (च) कार्पेंटर; (छ) वैल्डर (वैल्डर संगत भारतीय मानक के अनुसार वैल्डर अर्हता परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए); और (iii) संबंधित ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो।

अधिक विवरण के लिए, कृपया अनुलग्नक -III देखें।

4. आयु सीमा आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण की तारीख को

(i) तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) हेतु अभ्यर्थियों की आयु 18-30 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वरिष्ठ तकनीशियन पद हेतु आयु 18-27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) के मामले में अभ्यर्थी का जन्म "09 मार्च 1990 से पहले" और "09 मार्च 2002 के बाद" भी नहीं हुआ होना चाहिए और वरिष्ठ तकनीशियन के मामले में अभ्यर्थी का जन्म "09 मार्च 1993 से पहले" और "09 मार्च 2002 के बाद" भी नहीं हुआ होना चाहिए;

(ii) अधिकतम आयु सीमा में छूट हेतु, कृपया अनुलग्नक -IV देखें।

5. वेतन संरचना (वेतनमान), पदों की भर्ती हेतु भर्ती प्रक्रिया:

क्र.सं.	पद का नाम	7वें आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल	पद का समूह	भर्ती की प्रक्रिया
1	तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)	लेवल-6	ग	ऑनलाइन परीक्षा और निपुणता/ प्रायौगिक/ ट्रेड परीक्षा
2	वरिष्ठ तकनीशियन	लेवल-4	ग	ऑनलाइन परीक्षा और निपुणता/ प्रायौगिक/ ट्रेड परीक्षा

6. ऑन-लाइन परीक्षा:ऑन-लाइन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए ऑन-लाइन परीक्षा; परीक्षा केंद्रों; और अन्य दिशानिर्देशों/जानकारी क्रमशः अनुलग्नक-V, VI तथा VII में दी गई हैं।

7. कैसे आवेदन करें- उम्मीदवार 21 दिन तक बीआईएस की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में आवेदन अन्य कोई माध्यम/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके आगे जानकारी के लिए अनुलग्नक-VIII देखें।

8. आवेदन शुल्क का भुगतान:

- i. आवेदन शुल्क 500 रूपये होगा। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिक/महिला और बीआईएस में सेवारत विभागीय उम्मीदवारों द्वारा कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा;
- ii. आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑन-लाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाना है;
- iii. आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के 21 दिनों के दौरान शुल्क देय होगा और इसकी वापसी नहीं की जाएगी।
- iv. आवेदन शुल्क/अंतरिम शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए यदि कोई प्रभार हो तो स्वयं उम्मीदवार द्वारा बैंक लेनदेन प्रभार का वहन किया जाएगा।

9. ईवेंट्स तालिका निम्नांकित है:

ऑनलाइन इवेंट्स	तारीख/अवधि
आवेदन पत्र का पंजीकरण	17 फरवरी 2020 से 8 मार्च 2020 तक
आवेदन शुल्क का भुगतान (ऑन लाइन)	17 फरवरी 2020 से 8 मार्च 2020 तक
ऑन लाइन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करना	23 मार्च 2020 (अनंतिम)
ऑनलाइन परीक्षा	29 मार्च 2020 (अनंतिम)
ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम	21 अप्रैल 2020 (अनंतिम)

उम्मीदवारों को नियमित रूप से विवरण और अद्यतन जानकारी के लिए अधिकृत बीआईएस वेबसाइट और उनके पंजीकृत ईमेल आईडी नियमित रूप से देखते रहें।

10. महत्वपूर्ण निर्देश: विवरण के लिए अनुलग्नक-IX देखें

11. घोषणाएं: भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आगे की सभी घोषणाएं/विवरण केवल पंजीकृत ईमेल आईडी और एसएमएस के माध्यम से उम्मीदवार के अपने पंजीकृत मोबाइल फोन पर समय-समय पर भेजे जाएंगे और बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर भी प्रकाशित/उपलब्ध कराए जाएंगे।

दिनांक: 14 फरवरी 2020
स्थान: नई दिल्ली

निदेशक (स्थापना)
भारतीय मानक ब्यूरो